



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र 1936 (श0)

(सं0 पटना 701) पटना, बुधवार, 27 अगस्त 2014

सं0 10 (3)-न०वि०-नीति-01/12-355/न०वि० एवं आ०वि०
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

26 अगस्त 2014

विषय:—दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती अधिनियम, 2010 के आलोक में दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती नियमावली, 2014 तथा दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती स्कीम, 2014 के अनुमोदन के संबंध में।

दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती अधिनियम, 2010 की धारा-3 के अन्तर्गत बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा राज्य सरकार की अनुमोदन से स्कीम बनाने का प्रावधान किया गया है। बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा प्रस्तावित दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती स्कीम, 2014 (अनुसूची-1) को मंत्रिपरिषद की दिनांक 19.08.2014 की बैठक में स्वीकृति दी गयी।

2. दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती अधिनियम, 2010 की धारा-12 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से नियम बनाने का प्रावधान है। बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा प्रस्तावित दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती नियमावली, 2014 (अनुसूची-2) को मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 19.08.2014 की बैठक में स्वीकृति दी गयी।

3. बिहार राज्य आवास बोर्ड उपरोक्त अनुमोदन के आलोक में दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमावली एवं स्कीम को अविलम्ब अधिसूचित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करेगा।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संदीप पौण्डरीक,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 701-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>